

Date: 06-08-2025

To, The Manager Listing Department BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai- 400001 Scrip Code: 543945	To, The Manager Listing Department National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex Bandra East, Mumbai- 400051 Scrip Code: NETWEB
---	---

Dear Sir

Sub: Copies of Newspaper Advertisement

Pursuant to Regulation 30 and Regulation 47 of the SEBI Listing Regulations and in compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and the Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India, we enclose herewith copies of the following newspaper advertisements published in the following newspapers for giving Notice of the 26th Annual General Meeting of the Company to be held on Saturday, August 30, 2025, at 3.00 p.m. (IST) through Video Conferencing/Other Audio Visual Means only:

1. "Financial Express" dated 06th August, 2025 in All India Edition (English)

2. "JanSatta dated 06th August, 2025 in Delhi NCR Edition (Hindi)

The above information is also available on the website of the Company at www.netwebindia.com

This is for your information and records.

Thanking You,

Yours faithfully

For Netweb Technologies India Limited

Lohit
Chhabra

Digitally signed by
Lohit Chhabra
Date: 2025.08.06
12:36:24 +05'30'

Lohit Chhabra

Company Secretary & Compliance Officer

M.No A36610

Netweb

Netweb Technologies India Limited

PLOT NO. H-1, BLOCK-H, PLOT NO. 9, FARIDABAD INDUSTRIAL TOWN, SECTOR-57, FARIDABAD, HARYANA 121004 | Tel. No. : +91-129-2310400
Website: www.netwebtechnologies.com | E-mail: compliance@netwebindia.com
CIN: L72100HR1999PL03911

NOTICE OF THE 26th ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION
Notice is hereby given that 26th Annual General Meeting (AGM) of the members of Netweb Technologies India Limited is scheduled to be held on Saturday, 30th August, 2025, through Video Conferencing or any other audio-visual means to transact the business, as set out in the notice convening the AGM of the Company.

i. compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the Act) and rules issued thereunder and the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, General Circular No. 14/2020 dated 08th April, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) followed by Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, Circular No. 02/2021 dated 13th January 2021, and Circular No. 10/2022 dated 28th December 2022, and alongwith other applicable circular issued by SEBI and MCA from time to time (hereinafter collectively referred to as circulars) the AGM of the Company is being held through VC to transact the business set out in the Notice of AGM dated July 31st, 2025.

Further in accordance with the aforesaid circulars, the notice convening the AGM alongwith the Annual Report for the financial year 2024-25, has been electronically sent to all the shareholders on Tuesday 05th August 2025 whose email address are registered with the Company and/or Depository participants (DPs) in compliance with Section 108 of the Act read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and in Regulation 44 of the Listing Regulations, Members holding shares in physical or dematerialized form, as on the cut-off date, i.e. Friday, August 22, 2025, may cast their votes electronically on the e-voting system as set forth in the Notice through the electronic voting system (the "Remote e-voting").

All the Members are hereby informed that:
i. The business as set forth in the Notice convening the AGM will be transacted through voting by electronic means;
ii. The remote e-voting shall commence on Tuesday, August 26, 2025 at 9:00 AM and ends on Friday, August 29, 2025, at 05:00 PM;
iii. Members who are holding shares in physical form or who have not registered their email addresses and any person who acquires the shares and becomes a member post-dispatch of the Notice of the AGM and holds shares as on the cut-off date i.e. Friday 22nd August, 2025 may obtain the log-in ID and password by sending a request at ml.helodes@netwebindia.com. However, if the person is already registered with NSDL for e-voting then the existing USCD ID and password may be used for casting their vote;
iv. (a) Members may note that once they cast their votes on the resolution cast by the member, the member shall not be able to change it subsequently;
(b) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may participate in the AGM through VC/OMT facility but shall not be entitled to cast their vote on such resolution(s) again;
(c) the facility for voting will also be made available during the AGM, and those members present in the AGM through VC/OMT facility, who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not listed in the AGM, shall be eligible to vote through the e-voting system at the AGM;
(d) any persons whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date shall be entitled to avail facility of remote e-voting or e-voting at the AGM;
(e) the voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital;
v. Details of the process/method of casting votes by Members are included in the AGM Notice;
vi. Members holding shares in physical mode are requested to register/update their email addresses with the Company and also update bank account mandate for receipt of Dividend with the Registrar and Transfer Agent (RTA);
vii. In case of any grievances connected with facility for voting by electronic means please contact with our Registrar & share transfer agent at Tel No 022-4818 6270 and email ID: ml.helodes@netwebindia.com

For & on behalf of the Board of Netweb Technologies India Limited
Place: Faridabad
Date: August 06, 2025
(Company Secretary & Compliance Officer)

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

THE BUSINESS DAILY FOR DAILY BUSINESS

FINANCIAL EXPRESS



EVEREADY INDUSTRIES INDIA LIMITED

Registered Office: Z, Raney Park, Kolkata-700119
CIN: L31402WB1934PL007993 | Tel: 91-33-24552513, 033-24864961, Fax: 91-33-24864673
Email: investorrelation@eveready.co.in | Website: www.evereadyindia.com

EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE/CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2025

Sl. No.	Particulars	STANDALONE			CONSOLIDATED		
		3 months ended	Previous Year ended	Corresponding 3 months ended in the previous year	3 months ended	Previous Year ended	Corresponding 3 months ended in the previous year
		(30/06/2025)	(31/03/2025)	(30/06/2024)	(30/06/2025)	(31/03/2025)	(30/06/2024)
1	Total Income from Operations	374.14	1,343.92	349.37	374.14	1,344.52	349.37
2	Net Profit/Loss for the period before tax	36.21	98.45	35.41	36.25	98.51	35.41
3	Net Profit/Loss for the period after tax	30.19	82.38	29.36	30.23	82.44	29.36
4	Total Comprehensive Income for the period (comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	29.49	81.37	29.36	29.50	81.66	29.20
5	Paid up Equity Share Capital (Face Value ₹ 5/- per share)	36.34	36.34	36.34	36.34	36.34	36.34
6	Earnings Per Share (Basic & Diluted) of ₹ 5/- each (not annualised)						
	(a) Basic	4.15	11.33	4.04	4.16	11.34	4.04
	(b) Diluted	4.15	11.33	4.04	4.16	11.34	4.04

NOTE:

The above is an extract of the detailed format of the Statements of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Statements of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results are available on the Stock Exchange websites at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the Company's website at www.evereadyindia.com.



Kolkata
August 05, 2025

Scan the QR code to view the full results

EVEREADY INDUSTRIES INDIA LIMITED
Suvamoy Saha
Managing Director

KFINTech

KFIN TECHNOLOGIES LIMITED

CIN: L72400MH-2017PLC44072
Registered Office: 301, The Centrum, 3rd Floor, 67, Lal Bahadur Shastri Road, Navpada, Kurla (West), Mumbai - 400070, Maharashtra. Tel. No.: +91 22 4962 0337.
Website: www.kfintech.com | Email: investorrelations@kfintech.com

NOTICE OF THE 8th ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 8th Annual General Meeting (AGM) of the members of KFin Technologies Limited ("Company") will be held on **Thursday, August 28, 2025, at 03:00 p.m. (IST)** through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") in compliance with the applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and the Securities and Exchange Board of India. The deemed venue for the AGM shall be the Registered Office of the Company.

The Notice setting out the businesses to be transacted during the AGM and the Annual Report for the Financial Year 2024-25 shall be sent through email to the members whose email IDs are registered with the Registrar and Transfer Agent ("RTA") / Depository Participants ("DPs"). The email dissemination has been completed on August 05, 2025.

The Notice of the AGM and Annual Report for the Financial Year 2024-25 are available on the website of the Company at www.kfintech.com under the Shareholder Relations section, website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com and the website of the stock exchanges where the equity shares of the Company are listed i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com. The documents pertaining to the items of business to be transacted at the AGM shall be available for inspection as per the procedure of inspection provided in Note Nos. 15 and 16 of the Notice of AGM.

Instructions for remote e-voting and e-voting during the AGM
In accordance with Section 108 of the Companies Act, 2013 ("Act") read with the corresponding rules made thereunder, and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("LODR Regulations"), the Company is pleased to provide a facility to its members to exercise their right to vote on the businesses as set forth in the Notice of the AGM by the electronic means through remote e-voting and e-voting during the AGM. The Company has appointed NSDL as the agency to provide electronic voting facility.

All members may please note the following

- Only those members whose names appear in the Register of Members / List of Beneficial Owners maintained by the depositories as on **Friday, August 22, 2025**, being the cut-off date, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting during the AGM. The voting rights of members shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date.
- The remote e-voting period will commence at **09:00 a.m. (IST) on Monday, August 25, 2025**, and will end at **05:00 p.m. (IST) on Wednesday, August 27, 2025**. Remote e-voting module will be disabled by NSDL upon expiry of the remote e-voting period.
- In addition, the facility for voting through e-voting system shall also be made available during the AGM. Members attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting will be eligible to cast their vote through e-voting during the AGM. Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may participate in the AGM but shall not be eligible to cast their votes again.
- Once the vote on a resolution is cast by a member, the member will not be allowed to modify it subsequently or cast the vote again.
- The manner of remote e-voting for members holding shares in dematerialized mode and physical mode as well as for members who have not registered their email IDs is provided in the Notice of the AGM.
- Any person, who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date, may obtain their User ID and password by sending an email request as mentioned in the Notice of the AGM to evoting@nsdl.com. However, if a person is already registered with NSDL for remote e-voting, then their existing user ID and password can be used for casting the vote.

Members who need technical assistance before or during the AGM

- May refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the download section of www.evoting.nsdl.com; or
- Call on 022-48867000; or
- Contact Ms. Prajakta Pawle, Officer, National Securities Depository Limited, 301, 3rd Floor, Naman Chambers, G Block, Plot No. C-32, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai - 400051, India, at evoting@nsdl.com.

For KFin Technologies Limited
Sd/-
Alpana Kundu
Company Secretary and
Compliance Officer
Date: August 05, 2025
Place: Mumbai

ENERGIZING GAINS, STELLAR RESULTS!



*Standalone Figures

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON 30th JUNE 2025

Sr. No.	Particulars	Standalone			Consolidated		
		Quarter ended	Year ended	Quarter ended	Quarter ended	Year ended	Year ended
		30/06/2025	30/06/2024	31/03/2025	30/06/2025	30/06/2024	31/03/2025
		Un-audited	Audited		Un-audited	Audited	
1	Total Income from operations	4,124.77	4,653.38	17,394.94	4,124.77	4,653.38	17,393.26
2	Net Profit for the period (before Tax and Exceptional Items)	439.87	443.30	1,546.60	439.87	443.30	1,544.92
3	Net Profit for the period before Tax (after Exceptional Items)	439.87	443.30	1,546.60	439.87	443.30	1,544.92
4	Net Profit for the period after Tax (after Exceptional Items)	326.77	329.78	1,145.51	327.64	330.71	1,148.32
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	326.18	332.08	1,154.02	328.99	332.99	1,156.78
6	Equity Share Capital (Face value of ₹ 2/- each)	137.68	137.68	137.68	137.68	137.68	137.68
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet)			8,315.97			8,351.96
8	Earnings Per Share in ₹ (Face Value of ₹ 2/- each) (not annualised for quarter)						
	Basic (₹)	4.75	4.79	16.64	4.76	4.80	16.68
	Diluted (₹)	4.75	4.79	16.64	4.76	4.80	16.68

Notes:

- The financial statements have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and read together with the Companies (Indian Accounting Standards - Ind AS) Rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India. These financial results are presented in accordance with the requirements of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time along with other relevant rules issued thereunder.
- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended). The full format of the Quarterly Financial Results is available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and also on Company's website www.gujaratgas.com. The same can be accessed by scanning the QR Code.
- The above financial results were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 5th August, 2025 at Gandhinagar, Gujarat.
- Previous period figures have been reclassified / regrouped wherever considered necessary to conform to the current period figures.



Place: Gandhinagar
Date : 5th August, 2025

For and on behalf of Board of Directors
Gujarat Gas Limited

Milind Torawane, IAS
Managing Director

GUJARAT GAS LIMITED

Regd. Office: Gujarat Gas CNG Station, Sector-5/C, Gandhinagar-382006,
District: Gandhinagar, Gujarat. Tel: +91-79-26737400 Fax: +91-79-2646249 Website: www.gujaratgas.com
Email: investors@gujaratgas.com | CIN : L40200GJ2012SGC069118

